



**राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018**  
**Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018**

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक:— पं. 03(65)R.S.S.B / स्टोर / Stationery / 2021-22 / ५३।

जयपुर, दिनांक:— २४-०६-२०२१

**खुली निविदा सूचना (2021-22/६१)**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं कार्यालय के उपयोग हेतु निम्नानुसार स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालय उपयोगी सामग्री के क्रय के लिए वार्षिक अनुबंध दर संविदा हेतु पंजीकृत अनुभवी फर्मो/राजकीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता फर्मो से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबंध निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:—

| विवरण                                                         | अनुमानित राशि (लाख में) | बोली प्रतिभूति राशि (रु.में)                        | बिड प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक एवं प्रपत्र मूल्य | बिड प्राप्ति की अंतिम दिनांक व समय       | बिड खोलने की तिथि व समय               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालय उपयोगी सामग्री | 7.00                    | एनेक्सर “ई” अनुसार 50/- रुपये स्टाम्प पर घोषणा पत्र | दि. २४-०६-२०२१। रुपये 400/-                         | दि. ०५-०७-२०२१। मध्याह्न पश्चात् 1:00 तक | दि. ०५-०७-२०२१। मध्याह्न पश्चात् 3:00 |

बिड प्रपत्र एवं शर्ते [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) एवं <http://Sppp.raj.nic.in> पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए प्रपत्र की स्थिति में बिड शुल्क रु. 400/- का बैकर्स चैक/डी.डी. एवं बोर्ड कार्यालय से खरीदे गये प्रपत्र की स्थिति में नगद जमा रसीद संलग्न करना आवश्यक है। सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चेक के माध्यम से निविदा शुल्क रोकड़ शाखा में जमा करवाकर, प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा की जा सकती है। निविदा प्रपत्र डाक से मंगवाने पर डाक खर्च रुपये 50/- अलग से देय होगा।

सचिव  
*[Signature]*



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) Tel. : 0141-2722520

बिड प्रपत्र नं. : खुली निविदा सूचना (2021-22/01)  
बिड जमा कराने की अंतिम तिथि: 08/07/2021  
अपराह्न : 1.00 तक  
बिडप्रपत्र का मूल्य: 400/-

## तकनीकी निविदा

### Rate Contract for Stationary for Office use and Examination के लिये निविदा

- बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : ..... दूरभाष/मोबाइल नंबर एवं डाक का पता : .....
- बैंक खाता संख्या : ..... बैंक का नाम : .....
- शाखा का नाम : ..... IFSC Code : .....
- किसको संबोधित की गई : सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- संदर्भ – निविदा सूचना संख्या : 2021-22/01 दिनांक : .....
- बिड शुल्क की राशि 400/- (रु. चार सौ मात्र) नकद रसीद संख्या ..... दिनांक .....  
डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या ..... के द्वारा जमा करा दी गयी है/संलग्न है। राज्य लोक उपापन पोर्टल से बिड प्रपत्र डाउनलोड करने पर बिड शुल्क की राशि पृथक से डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा भुगतान की जानी है।
- हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2021-22/..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाणमें हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर (3 दिवस) माल की सुपुर्दगी बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है।
- वित्तीय निविदा में उद्धृत की गयी दरें अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डटी-एसपीएफसी / 2017 दिनांक 23.12.2020 द्वारा निर्धारित एनेक्सर “ई” अनुसार 50/- रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं एनेक्सर “ई” में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर बोली प्रतिभूति राशि रुपये 7,000/- की डी.डी. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी।
- GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं. .... पेन नंबर ..... की प्रति संलग्न है।
- राजकीय विभागों तथा स्वायतशासी संस्थाओं में स्टेशनरी आपूर्ति का अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)

| क्र.सं. | राजकीय विभागों तथा स्वायतशासी संस्थाओं का नाम | अवधि |
|---------|-----------------------------------------------|------|
|         |                                               |      |
|         |                                               |      |

- निविदा पर हस्ताक्षर फर्म से अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जावें।
- बिड शुल्क जमा/संलग्न नहीं होने एवं बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी-एसपीएफसी / 2017 दिनांक 23.12.2020 द्वारा निर्धारित एनेक्सर “ई” अनुसार 50/- रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय  
सील



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

## Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) Tel. : 0141-2722520

### खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्तें

\*\*टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। “तकनीकी निविदा” और “वित्तीय निविदा” के अलग – अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा। तीसरे लिफाफे पर “**Rate Contract for Stationary for Office use and Examination**” के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।
2. “वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदायें”:—निविदायें Services(सेवाओं) के पंजीकृत अनुभवी फर्मों/राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे अंत में उल्लेखित विवरणानुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।  
(ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ती स्वीकृती के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. GST (माल एवं सेवा कर) पंजीयन:—कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।
5. निविदा प्रारूप स्थाही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।
7. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्धृतकी जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायकों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाड़ी भाड़ (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दग्गी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।
8. विधि मान्यता—निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

11. विनिर्देश :-

- i. (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- ii. निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की हैं, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
- iii. **वारंटी/गारंटी खण्ड:-** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दग्दी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि एक माह की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाये, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुयें विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- iv. मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाये, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।
- v. क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

12. निरीक्षण :-

- i. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

- ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुये हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. नमूने :—वित्तीय निविदा में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से ऐक की गयी निविदत्त वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिये रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिये तथा आर/आर या जी.जार. एक पृथक् रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। सामग्री के नमूने नियमानुसार निर्धारित नोर्मस के प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिये।
14. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जायेंगे।
15. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छ: माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट—फूट, हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जायेगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeite) कर लिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट—फूट या हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें समपहत किया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा, उन्हें स्वीकार किया जायेगा।
18. नमूने निकालना :—परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जायेगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जायेगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जायेगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिये कार्यालय में प्रतिधारित किया जायेगा।
19. परीक्षण प्रभार :—परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
20. रद्द करना :—
- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुयें अनुमोदित नहीं की जायेंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
  - तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

| क्र.सं. | मद | मात्रा | सुपर्दगी अवधि |
|---------|----|--------|---------------|
|---------|----|--------|---------------|

21. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।
22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
24. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
25. (1) **सुपुर्दगी अवधि :** निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:-  
 (2) **परिमाण (Quantity) में परिवर्तन का अधिकार :–**  
 (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्टपरिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।  
 (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :–
  - संकर्मा (Works)की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
  - मूल संविदा के माल (Goods) या सेवाओं (services)के मूल्य का 50 प्रतिशत।
 (3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
26. **बोली प्रतिभूति राशि :**  
 बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 द्वारा निर्धारित एनेक्सर “ई” अनुसार 50/- रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं एनेक्सर “ई” में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर निम्नानुसार बोली प्रतिभूति राशि वसूल योग्य होगी:-
  - खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रकर्मी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राककलित मूल्य का 1 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.25% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूप उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
  - बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकरणों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत

- सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
3. बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।
  4. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेग। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
  5. बोली प्रतिभूति नकद, बैंक चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
  6. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गमी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निवंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गमी द्वारा जारी की जायेगी।
  7. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गमी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।
  8. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गमी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गमी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।
  9. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
  10. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समर्पित(Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :
    - i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
    - ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
    - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
    - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है:
    - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
  11. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
  12. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्—
    - a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,

- b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर ,
  - c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
  - d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अंतिम समय—सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।
27. (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security) :-
1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
  2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
  3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूप उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 1 प्रतिशत होगी।
  4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:
    - i. “ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा”
    - ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
    - iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
    - iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
    - v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
  5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।
- (3) प्रतिभूति निष्केप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-
- a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  - b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
  - c. प्रतिभूति निष्केप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
28. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

- (2) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये।
- (3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
- (4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

**29. बीमा :-**

1. सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

**30. भुगतान :-**

1. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रासपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।
2. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. विवादास्पद मर्दों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

31. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(2) परिसमापित नुकसानी (**Liquidated damages**)—परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है—

विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये  $2\frac{1}{2}\%$

एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये  $5\%$

आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये  $7\frac{1}{2}\%$

विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये  $10\%$

1. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

2. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि  $10\%$  होगी।

3. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घिटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाप्ति नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
32. **वसूलियाँ :** परिसमाप्ति नुकसानी, कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमाप्ति क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
33. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।
34. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
35. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
36. **निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-**
1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डील) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
  2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
  3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
  4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
37. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
38. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
39. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
40. बिड प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं द्वितीय अपील शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
41. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' एवं 'एफ' इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
42. मैंने सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय सील

## **Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion , Bid rigging or anti-
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

### **Conflict of Interest**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including buy not limited to:
  - a. have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy form any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

## **Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to .....for procurement of.....

In response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

## **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is \_\_\_\_\_

The designation and address of the Second Appellate Authority is \_\_\_\_\_

### **(1) Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

**(2)** The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

**(3)** If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

### **(5) Form of Appeal**

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

### **(6) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parites to appeal present before him; and

(ii) persue or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012**

Appeal No. .... of .....

Before the .....(First/Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent (s):**

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against**

And name and designation of the officer/authority

Statement of a decision, action or omission of

The procuring Entity in contravention to the provisions

Of the Act by which the appellant is aggrieved:

**4. If the Appellant Proposes to be representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:**

**6. Ground of appeal:**

.....  
.....  
.....

(Supported by an affidavit)

**7.** Prayer:

.....  
.....  
.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

## **Annexure D : Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance

supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

## Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. :

Alternative No. :

To :

.....  
.....

We, the undersigned, declare that :

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the terms and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

In the capacity of : \_\_\_\_\_

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on            day of

Corporate Seal \_\_\_\_\_

**[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]**

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरण के लिए निविदा दी हैं, उनका /मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेर/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समर्पण कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय  
सील

निविदादाता का नाम :—

पूर्ण पता :—

टेलिफोन नं.:

फर्म का नाम :

(कंपनी के लेटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव,  
राजस्थान कर्मचारीचयन बोर्ड,  
दुर्गापुरा, जयपुर

### वित्तीय निविदा प्रपत्र

### Rate Contract for Stationary for Office use and Examination के लिये निविदा

निविदा सूचना संख्या ..... के क्रम में हमारी दरें निम्नानुसार हैं:-

| क्र.सं. | सामग्री का नाम                                                                    | दरें (Inclusive of All taxes & GST) (राशि रु. में) |           | विशेष विवरण<br>(ब्रांड) / मॉडल का नाम | आपूर्ति किये जाने वाले ब्रांड / मॉडल का नाम अंकित करें। |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   | अंकों में                                          | शब्दोंमें |                                       |                                                         |
| 1       | Photostate Rim FS size 75 Gsm 500 sheets                                          |                                                    |           | J.k अथवा इसके अनुरूप                  |                                                         |
| 2       | Photostate Rim A4 size 75 Gsm 500 sheets                                          |                                                    |           | J.k अथवा इसके अनुरूप                  |                                                         |
| 3       | Photostate Rim FS size 70Gsm 500 Color sheets                                     |                                                    |           | Good Quality                          |                                                         |
| 4       | Photostate Rim A4 size 70Gsm 500 Color sheets                                     |                                                    |           | Good Quality                          |                                                         |
| 5       | photstate paper Rim A3 size 70Gsm 500 sheets                                      |                                                    |           | J.k. अथवा इसके अनुरूप                 |                                                         |
| 6       | Pokar /borer with steel handle                                                    |                                                    |           | Good Quality                          |                                                         |
| 7       | Plastic Folder Double side Transparent with board Name and Logo Printed (FS Size) |                                                    |           | Infinity INF CF914F                   |                                                         |

|    |                                                            |                                  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8  | Cello/Brown Tape 2"                                        | Wonder अथवा इसके अनुरूप          |
| 9  | Note Pad No.-08, 80pg.                                     | Neelgagan अथवा इसके अनुरूप       |
| 10 | Confrence Pad 40page                                       | Neelgagan अथवा इसके अनुरूप       |
| 11 | Slip pad 9" x 6" (80 page)                                 | Neelgagan अथवा इसके अनुरूप       |
| 12 | Letter Receipt Register 240 page                           | Sagarअथवा इसके अनुरूप            |
| 13 | Letter Despatch Register 240pg.                            | Sagarअथवा इसके अनुरूप            |
| 14 | Nepkin                                                     | Jagilam/S. Fine अथवा इसके अनुरूप |
| 15 | Consumable Stock Register 320 page                         | S/Fine, Sagarअथवा इसके अनुरूप    |
| 16 | Permanant Stock Register 320page                           | S/Fine, Sagar अथवा इसके अनुरूप   |
| 17 | Plastic Scale (30CM) 12"                                   | Camlinअथवा इसके अनुरूप           |
| 18 | Paper walight Plastic(multi colour)                        | Dolphin /S. Fineअथवा इसके अनुरूप |
| 19 | Allpin cusion (Magnetic)                                   | Good Quality                     |
| 20 | Big Candle (Per Candle 30 gm)                              | Good Quality                     |
| 21 | Stapler Pin No. 10                                         | Kangaroosअथवा इसके अनुरूप        |
| 22 | Stepler Pin No. 24x6                                       | Kangaroosअथवा इसके अनुरूप        |
| 23 | Stepler No. 10                                             | Kangaroosअथवा इसके अनुरूप        |
| 24 | Stepler No. 24x6                                           | Kangaroosअथवा इसके अनुरूप        |
| 25 | Pencil                                                     | Apsara/Natrajअथवा इसके अनुरूप    |
| 26 | Gum bottle 150ml                                           | Camelअथवा इसके अनुरूप            |
| 27 | File lace (per Bundle 100 lace)                            | 924 No.Green                     |
| 28 | File Tag (per bundle 100 Tag)                              | Good Quality                     |
| 29 | Correcting whitener Pen                                    | Koresअथवा इसके अनुरूप            |
| 30 | File Pad file size ( 32 onus)                              | Good Quality                     |
| 31 | Stamp Pad Faber Castell 88*54mm                            | Camlin/Ashokaअथवा इसके अनुरूप    |
| 32 | Stamp Pad ink 100ml 100Mk                                  | Camlin/Ashokaअथवा इसके अनुरूप    |
| 33 | Carbon Paper (Per pkt 100 paper)                           | Kores Blueअथवा इसके अनुरूप       |
| 34 | File Cover soft laminated with printed board name and logo | Siimpur Mill अथवा इसके अनुरूप    |

|    |                                                                           |                                    |                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 35 | Eraser                                                                    |                                    | Apsaraअथवा इसके अनुरूप         |
| 36 | Sharpner                                                                  |                                    | Apsaraअथवा इसके अनुरूप         |
| 37 | A4-Plastic Folder Single side Transpernt with board name and logo printed |                                    | Rainbow/S.Fineअथवा इसके अनुरूप |
| 38 | Fevistick 15gm                                                            |                                    | Koresअथवा इसके अनुरूप          |
| 39 | Highlighter All Color                                                     |                                    | Luxer/Camlinअथवा इसके अनुरूप   |
| 40 | CD Marker Pen                                                             |                                    | Luxerअथवा इसके अनुरूप          |
| 41 | Cello Tape half inch                                                      |                                    | Wonderअथवा इसके अनुरूप         |
| 42 | Cello Tape 1"                                                             |                                    | Wonderअथवा इसके अनुरूप         |
| 43 | Brown Tape 1"                                                             |                                    | Wonderअथवा इसके अनुरूप         |
| 44 | Ball pen MRP. 5/-                                                         |                                    | Add Gelअथवा इसके अनुरूप        |
| 45 | Ball pen MRP 10/-                                                         |                                    | Add Gel अथवा इसके अनुरूप       |
| 46 | Ball pen MRP 20/-                                                         |                                    | Add Gel अथवा इसके अनुरूप       |
| 47 | Gel Pen MRP. 5/-                                                          |                                    | Add Gel अथवा इसके अनुरूप       |
| 48 | Gel pen MRP. 10/-                                                         |                                    | Add Gel अथवा इसके अनुरूप       |
| 49 | Gel pen MRP. 20/-                                                         |                                    | Add Gel अथवा इसके अनुरूप       |
| 50 | Register (Lined) 180page                                                  |                                    | S./Fineअथवा इसके अनुरूप        |
| 51 | Pilot Pen v7 shine                                                        | Pilot                              |                                |
| 52 | Pilot Pen v5 shine                                                        | Pilot                              |                                |
| 53 | U-Pin pkt. (Plastic Coated)                                               | Zenअथवा इसके अनुरूप                |                                |
| 54 | Flag pad 3x3                                                              | Colored Desmatsअथवा इसके अनुरूप    |                                |
| 55 | Spiral pad No. 66 40page                                                  | Neelgaganअथवा इसके अनुरूप          |                                |
| 56 | Spiral Pad No. 67, 100 Page                                               | Neelgaganअथवा इसके अनुरूप          |                                |
| 57 | Peon Dairy 240 page                                                       | Sagarअथवा इसके अनुरूप              |                                |
| 58 | Clock Cell                                                                | Novino/Evereadyअथवा इसके अनुरूप    |                                |
| 59 | Pen stand, Big with Holder pen                                            | Omega Elite/S.fineअथवा इसके अनुरूप |                                |

|    |                                                |                                         |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 60 | Pen stand (Tumbler)                            | SAYA SY-Ps04अथवा इसके अनुरूप            |
| 61 | Punching Machine No 600                        | Kangaroअथवा इसके अनुरूप                 |
| 62 | punching machin No. 800                        | Kangaroअथवा इसके अनुरूप                 |
| 63 | Punching Machine Single                        | Kangaroअथवा इसके अनुरूप                 |
| 64 | Punching Machine No. 52                        | Kangaroअथवा इसके अनुरूप                 |
| 65 | Dettol Soap (Small)                            | Dettolअथवा इसके अनुरूप                  |
| 66 | Dettol Hand Wash Liquid 200ml.                 | Dettolअथवा इसके अनुरूप                  |
| 67 | Register (Lined) 240 page                      | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 68 | Register (Lined) 120 page                      | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 69 | File size Envelope(12x16)                      | Craft Laminated/S.fine                  |
| 70 | File Size Envelope laminated                   | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 71 | Scissor 8"                                     | Gemअथवा इसके अनुरूप                     |
| 72 | Clip Board Transparent                         | Fiber Sheet                             |
| 73 | Table Bell                                     | Fort 102 no                             |
| 74 | Allout Refill (30 days)                        | Alloutअथवा इसके अनुरूप                  |
| 75 | Medium Paper cutter                            | Natrajअथवा इसके अनुरूप                  |
| 76 | Water Pad                                      | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 77 | Envelope 9x4 with matter Printed               | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 78 | Envelope 11x5 with Matter printed              | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 79 | Chapdi                                         | S.fineअथवा इसके अनुरूप                  |
| 80 | Fax Role 30 meter                              | Mitsubishi/S.fineअथवा इसके अनुरूप       |
| 81 | Water Glass set (Per Set 6 piece) for officers | Borosil Vision / S.fineअथवा इसके अनुरूप |
| 82 | Water Glass for staff (Rs.20)                  | Borosil Vision / S.fineअथवा इसके अनुरूप |
| 83 | Tea Cup set with socior (per set 6 piece)      | Good Quality                            |
| 84 | Water jug (2 litre)                            | Celloअथवा इसके अनुरूप                   |
| 85 | Service Tray (Big)                             | Superiorअथवा इसके अनुरूप                |

|     |                                                                 |  |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| 86  | Spoon (Per set 6 Piece)                                         |  | Superiorअथवा इसके अनुरूप       |
| 87  | Vim bar Small                                                   |  | Vimbarअथवा इसके अनुरूप         |
| 88  | HIT (Black) 320ml.                                              |  | HITअथवा इसके अनुरूप            |
| 89  | Room Freshner (125gm)                                           |  |                                |
| 90  | Collin 200 ML                                                   |  | Godrejअथवा इसके अनुरूप         |
| 91  | Electrical Ext. Board with five metre Cable (Six pin<br>Socket) |  | Collinअथवा इसके अनुरूप         |
| 92  | Plastic desktop dustbin (Medium)                                |  | Klickअथवा इसके अनुरूप          |
| 93  | Plastic desktop dustbin (big) 50 litre                          |  |                                |
| 94  | Rubber Band (Small and big) (Per pkt- 400gm)                    |  | cello अथवा इसके अनुरूप         |
| 95  | Washing Powder 100gm pouch                                      |  | Celloअथवा इसके अनुरूप          |
| 96  | Towel for Officer chair                                         |  | S.fineअथवा इसके अनुरूप         |
| 97  | Quater plate                                                    |  | Rin/Jhalakअथवा इसके अनुरूप     |
| 98  | Full plate 110 R.C.                                             |  | Bombay Dyiengअथवा इसके अनुरूप  |
| 99  | Tea Coaster                                                     |  | S.fineअथवा इसके अनुरूप         |
| 100 | Attendance Register big for Staff 100 page                      |  | S./Fine Sagarअथवा इसके अनुरूप  |
| 101 | packthread (hemp) (सूतली)                                       |  | S./Fineअथवा इसके अनुरूप        |
| 102 | Electrical kettle 3315 1 litre                                  |  | Ushaअथवा इसके अनुरूप           |
| 103 | Bill Register 240pg.                                            |  | Sagar /Rastogiअथवा इसके अनुरूप |
| 104 | Treasury Transit Register 240pg.                                |  | Sagar/Rastogiअथवा इसके अनुरूप  |
| 105 | Pay Posting Register 240pg.                                     |  | Sagar/Rastogiअथवा इसके अनुरूप  |
| 106 | Plastic Bucket 20litre                                          |  | celloअथवा इसके अनुरूप          |
| 107 | A4 size envelope laminated                                      |  | S.fineअथवा इसके अनुरूप         |
| 108 | Allout Machine with refills                                     |  | Alloutअथवा इसके अनुरूप         |
| 109 | Calculator 12digits (Casio MJ 120)                              |  | Casioअथवा इसके अनुरूप          |
| 110 | Cell for Calculater 12digits (Casio MJ 120)                     |  | Casioअथवा इसके अनुरूप          |
| 111 | Index File plastic No. L-549                                    |  | Good Quality                   |

|     |                                                      |  |                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| 112 | index file normal No. L-549                          |  |                                  | Good Quality |
| 113 | Reynold Trimax Gold pen                              |  | Reynold                          |              |
| 114 | Name plate(12"x4")                                   |  | S.fineअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 115 | Nepkin Stand                                         |  | Good Quality                     |              |
| 116 | Dr. Pad Slip                                         |  | Good Quality                     |              |
| 117 | Cashbook Small (Govt.) 200pg                         |  | Sagar/Rastogiअथवा इसके अनुरूप    |              |
| 118 | Cashbook Big (Govt.) 200pg.                          |  | Sagar/Rastogiअथवा इसके अनुरूप    |              |
| 119 | Permanent Marker Bold                                |  | Camlinअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 120 | Self inked Seal (Per line)                           |  | S.fineअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 121 | Rubber Stamp seal (Per line)                         |  | S.fineअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 122 | Binder Clip 25mm                                     |  | Realoneअथवा इसके अनुरूप          |              |
| 123 | Binder Clip 41mm                                     |  | Realoneअथवा इसके अनुरूप          |              |
| 124 | Feviquick MRP-5/-                                    |  | Pediliteअथवा इसके अनुरूप         |              |
| 125 | Shorthand pencil                                     |  | Natrai/Apsraअथवा इसके अनुरूप     |              |
| 126 | poker big with steal handle                          |  | Good Quality                     |              |
| 127 | All pin pkt.                                         |  | Zen / Good Quality               |              |
| 128 | Paper Tray plastic jalidar                           |  | Celloअथवा इसके अनुरूप            |              |
| 129 | Paper Stand                                          |  | Bossअथवा इसके अनुरूप             |              |
| 130 | Adhesive slip pad (75mmx100mm)                       |  | Neelgagan/S.fineअथवा इसके अनुरूप |              |
| 131 | Fevicol Tube 50gm                                    |  | Pediliteअथवा इसके अनुरूप         |              |
| 132 | Clip pin                                             |  | bell make 30mmअथवा इसके अनुरूप   |              |
| 133 | cutter big 18mm blade                                |  | TRIO/Natraजाइंडर इसके अनुरूप     |              |
| 134 | Foot mate (joot size 4x2')                           |  | Good Quality                     |              |
| 135 | Room Heater(single rode)                             |  | S/fineअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 136 | Remote Bell                                          |  | Anchorअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 137 | Cell for Remote Bell (GP ULTRA) 23AE 12V             |  | GP ULTRAअथवा इसके अनुरूप         |              |
| 138 | Ajanta Quataz Golden Ring Plastic wall Clock No. 497 |  | Ajantaअथवा इसके अनुरूप           |              |
| 139 | uniball i-micro pen all color                        |  | Uniball                          |              |

|     |                                                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 140 | Posts Stamp Register                                    | S.fineअथवा इसके अनुरूप       |
| 141 | Table glass Superior (per Feet Sq)                      | Superior                     |
| 142 | Key Chain/locket                                        | Superior                     |
| 143 | Plastic Self Adhesive Hooks                             | Anchor/S.fine                |
| 144 | Hanger                                                  | Good Quality                 |
| 145 | Pen Drive 8GB Steal Body                                | Kingston/ अथवा इसके अनुरूप   |
| 146 | Pen Drive 16GB Steal Body                               | Kingston/ अथवा इसके अनुरूप   |
| 147 | Pen Drive 32GB Steal Body                               | Kingston/ अथवा इसके अनुरूप   |
| 148 | Pen Drive 64GB Steal Body                               | Kingston/ अथवा इसके अनुरूप   |
| 149 | Pen Drive 128GB Steal Body                              | Kingston/ अथवा इसके अनुरूप   |
| 150 | wireless Mouse                                          | Iball/ Dell अथवा इसके अनुरूप |
| 151 | Wireless Keyboard                                       | Iball/ Dell अथवा इसके अनुरूप |
| 152 | Computer Mouse                                          | Iball/ Dell अथवा इसके अनुरूप |
| 153 | Key Board                                               | Iball/ Dell अथवा इसके अनुरूप |
| 154 | HP M 226dn Carriage                                     | Hp                           |
| 155 | USB 3.0 A to B Printer Cable (1.5 meter) in Copper      | Technxt/S.fine               |
| 156 | CD-R, 700MB-100pc                                       | Sonyअथवा इसके अनुरूप         |
| 157 | CD-RW, 700MB-100pc                                      | Sonyअथवा इसके अनुरूप         |
| 158 | DVD-R, 4.7GB-100 pc                                     | Sonyअथवा इसके अनुरूप         |
| 159 | DVD-RW, 4.7GB-100 pc                                    | Sonyअथवा इसके अनुरूप         |
| 160 | CD cover (plastic) Superior                             | Superiorअथवा इसके अनुरूप     |
| 161 | CD Case Box Transparent                                 | Sonyअथवा इसके अनुरूप         |
| 162 | Total Security Antivirus<br>(3 years warranty +03 User) | Quick Heal                   |
| 163 | Hard disk 2 TB                                          | WD                           |
| 164 | HP AC power Adapter for Scanner                         | HP                           |
| 165 | HP AC power Adapter for Laptop                          | HP                           |

|     |                                                |                         |      |  |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|------|--|
| 166 | Bag For Laptop                                 |                         | HP   |  |
| 167 | AC power Adapter for Telephone                 |                         | BSNL |  |
| 168 | AC power Adapter for IP Phone                  | CISCO                   |      |  |
| 169 | Compact Disk Containers-Plastic Box            | Superior                |      |  |
| 170 | HP M-604 (CF281A)Toner                         | HP                      |      |  |
| 171 | Hp Laserjet M202dw Toner                       | HP                      |      |  |
| 172 | Hp Laser Jet Pro M203dw Toner                  | HP                      |      |  |
| 173 | Kyocera TA-4501i (Photocopier) (TK 6309) Toner | Kyocera                 |      |  |
| 174 | Canon MF 3010 Laser Jet Carriage               | Canon                   |      |  |
| 175 | Hp Laserjet 1536 dnf MFP Cartridge             | HP                      |      |  |
| 176 | Ricoh SP310dn Cartridge                        | Ricoh                   |      |  |
| 177 | Panasonic Fax KX-FP701 Cartridge Role          | Panasonic Fax           |      |  |
| 178 | Harrison Locks                                 | Good Quality            |      |  |
| 179 | Envelope size 9x4                              | S.fineअच्या इसके अनुरूप |      |  |
| 180 | Envelope size 12x6                             | S.fineअच्या इसके अनुरूप |      |  |

नोट:-

- ▲ निविदा में जिस सामग्री का ब्रॉण्ड एवं मॉडल दिया गया है, की ही दरे प्रस्तुत कर्त्ती होगी। इसके अतिरिक्त में मॉडल /ब्रॉण्ड का नाम अंकित करते हुए नमूने पेश करते होंगे।
- ▲ बोर्ड समिति के सापते पर निविदा में अंकित ब्रॉण्ड एवं मॉडल वाली सामग्री के नमूने भी प्रस्तुत करते होंगे।
- ▲ जिस सामग्री का नमूना रख्य निविदादाता द्वारा अंकित किया गया है, उसका नमूना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- ▲ सामग्री की दरों/मॉडल /ब्रॉण्ड के नाम में Over writing नहीं करें।
- ▲ दरे/मॉडल /ब्रॉण्ड के नाम स्पष्ट/पठनीय शब्दों में प्रस्तुत करने का श्रम करें।

हस्ताक्षर निविदादाता  
मय सील